

प्रेस विज्ञप्ति

जनपद बस्ती

दिनांक 28.12.2020

**बायोमेट्रिक क्लोनिंग के जरिये खातो से धोखाधड़ी कर करोड़ों रुपये निकालने वाले
अन्तर्राज्यीय गैंग के सरगना सहित तीन अभियुक्त गिरफ्तार।**

पुलिस अधीक्षक बस्ती श्री हेमराज मीना के आदेश के क्रम में जनपद बस्ती में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत अपर पुलिस अधीक्षक बस्ती श्री रविन्द्र कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी सदर श्री गिरीश कुमार सिंह के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली श्री रामपाल यादव, प्रभारी साइबर सेल उ0नि0 श्री मजहर खान, प्रभारी सर्विलंस सेल उ0नि0 जितेन्द्र सिंह की संयुक्त टीम द्वारा 3 अभियुक्तों को दिनांक 27.12.2020 को अर्श फैमिली रेस्टोरेन्ट बड़ेबन थाना कोतवाली जनपद बस्ती से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण:-

- 1- जितेन्द्र कुमार चौहान उर्फ जितू पुत्र बृजलाल निवासी बारीगांव थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर(गैंग लीडर)।
- 2- आकाश प्रधान पुत्र स्व0 सुब्रत कुमार प्रधान निवासी पावर हाउस के पास मोहदीपुर थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर।
- 3- भूपेन्द्र कुमार चौधरी उर्फ गुड्डू चौधरी पुत्र राधेश्याम निवासी एकला मिश्रौलिया थाना रुद्रपुर जनपद देवरिया हाल पता म0नं0 749 जंगल तुलसीपुर बिछिया थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर।

बरामदगी का विवरण:-

1. नकद रूपया 4,00,000/- (चार लाख रुपया)।
2. 0अदद स्कार्पियो नं 01UP 52 AH 1666 रंग सफेद।
3. 0अदद मोटर साईकिल हीरो होण्डा नं 01UP53 AB 7162 रंग स्लेटी
4. एक अदद देशी तमंचा .315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर।
5. अदद मोबाईल 04।
6. अदद एटीएम 17 कार्ड विभिन्न बैंको के।
7. अदद आधार कार्ड विभिन्न व्यक्तियों के 5।
8. अदद पैन कार्ड विभिन्न व्यक्तियों के 4।
9. अदद 1निर्वाचन कार्ड।
- 10.0एल0अदद डी 1 ।
- 11.02 अदद सिम कार्ड डोकोमो व जियो।
- 12.अदद 01 फिंगर प्रिन्ट स्कैनर मार्फो मशीन।

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक- 01.07.2020 को श्री प्रेम चन्द्र पुत्र स्व0 केदारनाथ बाढ कार्य खण्ड प्रथम बस्ती द्वारा थाना कोतवाली पर शिकायत दर्ज कराया गया कि मेरे दोनो खाते से विभिन्न तिथियों में दस-दस हजार करके 60 हजार रुपये निकल गये हैं जिसको किसी साईबर अपराधी ने निकाला है। जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर **मु0अ0स0- 331/2020 धारा 419,420, भादवि0** बनाम अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना थाना कोतवाली जनपद बस्ती द्वारा प्रारम्भ की गयी।

पूछताछ का विवरण:-

अभियुक्तो द्वारा बताया गया कि हम लोग जितेन्द्र कुमार चौहान के बताने पर अपराध करते है सबसे पहले फर्जी आई पर विभिन्न बैंको में खाता खोलवाते है उसके आधार पर 0नं0पैन कार्ड व मो ,आधार कार्ड 0डी0ATM प्राप्त कर लेते है उसके उपरान्त आधार कार्डपैन कार्ड व अँगुठे का डुप्लिकेट रबर मोहर तैयार करवाकर आधार कार्ड व पैन कार्ड , का प्रयोग करके उनके नाम के सम्मुखAEPS ट्रांजक्शन एप्लीकेशन पर उनके नाम से रजिस्ट्रेशन कर उन्ही के नाम का एक फर्जी एजेन्ट आईडी बनाकर उस आईडी का प्रयोग कर आधार कार्ड व डुप्लिकेट अंगुठे के क्लोन का प्रयोग कर आधार कार्ड से लिंक व्यक्ति के खाते मे AEPS के माध्यम से रुपया निकालकर अपने द्वारा प्रयोग किये जा रहे फर्जी खाते मे भेजकर फिर ATM से निकाल लेते है हमारे ग्रुप के सदस्य जितेन्द्र पाण्डेय का रूस्तमपुर ढाले से कचहरी जाने वाले रोड़ पर पेट्रोल पम्प के बगल जाने वाली गली में SC ग्राफिक्स की दुकान है हम लोग वही बैठकर योजना तैयार करते है । और आपस मे चारो लोग पैसा बराबर-बराबर बांट लेते है अब तक हम लोगो द्वारा करोड़ो रुपये की ठगी की जा चुकी है । यह कार्य हम लोग उत्तर प्रदेश के जनपदो के अलावा देश के अन्य प्रदेशो में करते है । यह कार्य हम लोग अपने आर्थिक एवं भौतिक लाभ के लिए करते है ।

इस गैंग द्वारा विगत एक वर्ष में लगभग 83 लाख रुपये विभिन्न व्यक्तियों के उनके खातो से AEPS के माध्यम से निकाला गया है उक्त रुपयो की मदद से इस गैंग के लिडर जितेन्द्र कुमार चौहान द्वारा करीब 32,00, 0रू 000(बत्तीस लाख रूपयेगोरखपुर में लगाया ,का कपड़े का कारखाना सहजनवा (गया है इस गैंग सदस्यो द्वारा ठगी के रुपयो से जो भी सम्पत्ति अर्जित की गयी है को ज्ञात कर उनकी जब्तीकरण की कार्यवाही 14 (1) गैग्रेस्टर एक्ट के तहत की जायगी ।

पंजीकृत अभियोग का विवरण:-

1. मु0अ0सं0 331/2020 धारा 419,420 बढोत्तरी धारा 467, 468,471 भादवि 66 सी0 आईटी एक्ट थाना कोतवाली जनपद बस्ती।
2. मु0अ0सं0 618/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली जनपद बस्ती।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1. प्रभारी निरीक्षक कोतवाली श्री रामपाल यादव जनपद बस्ती ।
2. प्रभारी साइबर सेल उ0 नि0 श्री मजहर खान ।
3. प्रभारी सर्विलान्स सेल उ0 नि0 श्री जितेन्द्र सिंह ।
4. उ0 नि0 श्री मोतिलाल थाना कोतवाली ।
5. काँ0 मोहन यादव, काँ0 धीरेन्द्र यादव, काँ0 अभिषेक त्रिपाठी, काँ0 धनश्यम यादव साइबर सेल जनपद-बस्ती ।
6. काँ0 जितेन्द्र यादव सर्विलान्स सेल ।
7. काँ0 हरेन्द्र यादव, काँ0 सोनू सिंह, का अभिषेक कुमार थाना कोतवाली जनपद बस्ती।